

"E-AUCTION SALE NOTICE"

DOSHION PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Regd Office: A-806, Sankalp Iconic Tower, Iscon- Ambli Road,
Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India, 380054
Liquidator's Address: Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd.
8B Middleton Street, 2A Geetanjali, Kolkata - 700 071, India
Contact: 8240634019; E-mail: ip.doshionpvtltd@gmail.com

E-Auction Sale Notice for Sale of Assets under Section 35(f) the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Regulation 32 (a) to (d), Regulation 33 & Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. Notice is hereby given to the Public in general that the below-described assets of Doshion Private Limited will be transferred as "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" "WHATEVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" and as such as on date as mentioned in the table herein below under liquidation. The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective property. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal <https://www.eauctions.co.in/>. The general public is invited to bid either personally or by duly authorized agent.

SCHEDULE OF ASSETS				(In INR)
Description of Assets	Participation Fees (INR)	Reserve Price (INR)	EMD (INR)	Incremental Amount
Basement, Ground Floor + 2 Storied Building at Plot No. 63/D-082, Block D, Sector 63, Gautam Buddha Nagar.	5,00,000	7,60,00,000	76,00,000	10,00,000

Date of Publication	10-06-2024 (Monday)
Last Date of Submission of Application Forms along with eligibility Documents by the Prospective Bidder-	24-06-2024 (Monday)
Intimation to Qualified Bidders	27-06-2024 (Thursday)
Last Date of Data Room Access, Site Visits and Discussion Meeting	From 28-06-2024 (Friday) till 04-07-2024 (Thursday) before 5:00 p.m.
Last date of EMD Deposit	On or before Monday, 08.07.2024, before 5:00 PM. Payable through RTGS/DD/Bank Transfer towards " Doshion Private Limited (In Liquidation) " having Account No. 355005000861 maintained with ICICI Bank, Middleton Street Branch, IFSC Code: ICIC0003550
Date & Time of e-auction-	10-07-2024 (Wednesday) The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web portal https://www.eauctions.co.in/ on 10.07.2024 (Wednesday) from 3:00 PM to 5:00 PM

The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Process Documents available at <https://www.eauctions.co.in/> and to the following conditions:

1. The particulars of the assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best information of the liquidator, but the liquidator shall not be answerable for any error, misstatement, or omission in this proclamation.

2. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification within the timelines specified in the process document. The inspection of assets put on auction will be permitted to interested bidders at sites within the timelines specified above.

3. The Liquidator shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of the assets e-auctioned. The intending bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc.

4. The bidders are requested to go through the **Process Document** before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings.

Disclaimer: *The Advertisement purports to ascertain the interest of Bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator. The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process involved herein, without giving reasons, at any time, and in any respect. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned timelines, shall be notified.*

Date: 10-06-2024

Place: Kolkata

Sd/-

**Bijay Murmuria, Authorised Insolvency Professional of Sumedha Management Solutions Private Limited, Liquidator, M/s. Doshion Private Limited
IBBI/IPE-0020/IPA-1/2022-23/50023**

Communication Address: Sumedha

Management Solutions Pvt. Ltd.

8B Middleton Street, 2B Geetanjali, Kolkata

- 700 071, India

Contact: 8240634019; E-mail:

ip.doshionpvtltd@gmail.com

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(संघीय निगम) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार) में
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक
के सम्बंध उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा
(4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम
30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के माध्यम से

नैसर्ग एक्सप्लोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
(CIN No.: U52390UP2022PTC156675)
विस्तार प्रतीकृत कार्यालय: एच.एन.-1 / एलजीएफ
बीन ब्लाक, गांधीबाबा इंडियापुरम,
उत्तर प्रदेश-201014, इंडिया, में स्थित है।

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी
केन्द्रीय सरकार के संबंध कंपनी अधिनियम, 2013 की
धारा 13 के अंतर्गत अधिनियम करने का प्रस्ताव करती है
जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रार के कार्यालय "उत्तर प्रदेश
राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित
करने के लिए तारीख मंगलवार 19 मार्च, 2024 को
आयोजित अन्वेषण सामग्री बैठक में पारित विशेष
संकाय के तर्जों में कंपनी के सामग्री प्रस्ताव में संशोधन
की पुष्टि की जाएगी।

कंपनी के प्रतीकृत कार्यलय के प्रस्तावित स्थानांतरण से
बाहरी किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होगा है तो वह
व्यक्ति या या निदेशक विभाग प्रपत्र फाइल
कर एनसी-21 पोटेंट (www.mca.gov.in)
में निकायन दर्ज कर सकता है। या एक राय
पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध
का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी अपील
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन
की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विधि, दिल्ली
तथा, रजिस्ट्रार जनरल अन्वेषण भवन, सीजीओ
ऑफिस, नई दिल्ली-110003 को पत्र प्रेषित
आवक दस्तावेज प्रस्तुत है या सुपुर्द कर सकते हैं और
इसकी प्रतीकृत अन्वेषण के लिए उत्तरदायी प्रतीकृत
कार्यालय के तहत भी कर सकते हैं।

एच.एन.-1/एलजीएफ बीन ब्लाक, गांधीबाबा
इंडियापुरम, उत्तर प्रदेश-201014, इंडिया,
कृते आवेदन की और से
कृते एक्सप्लोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./- श्री. कपिल शर्मा
निदेशक

तिथि: 07.06.2024
स्थान: गांधीबाबा बुद्धी (सीआईएन-06093528)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के
अनुसार में]

एक राज में दूसरे राज में करने के पंजीकृत
कार्यालय के पंजीकृत के लिये यथावत पर में प्रकाशित
करने के लिये निदेशन

केन्द्र ब्लाक, उत्तर क्षेत्र के सम्बंध
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा
(4) तथा कंपनी (निगम) नियम, 2014 के
नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्तव्य (ए) के
माध्यम से

संकाय सैन्ट्रल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत
कार्यालय: अहमदनगर, 01, पाल, संकाय अहमदनगर,
महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र-422413 में है, के
माध्यम से

एकदम आम जनता को सूचित किया जात है कि "संकाय
राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत
कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को यथावत करने
के लिए 20 मार्च, 2024 को आयोजित वार्षिक आम
सभा/असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार
कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि
के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह
कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से बाहरी
किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होगा है तो वह
व्यक्ति या या निदेशक विभाग प्रपत्र फाइल
कर एनसी-21 पोटेंट (www.mca.gov.in)
में निकायन दर्ज कर सकता है। या एक राय
पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध
का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी अपील
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन
की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विधि, दिल्ली
तथा, रजिस्ट्रार जनरल अन्वेषण भवन, सीजीओ
ऑफिस, नई दिल्ली-110003 को पत्र प्रेषित
आवक दस्तावेज प्रस्तुत है या सुपुर्द कर सकते हैं और
इसकी प्रतीकृत अन्वेषण के लिए उत्तरदायी प्रतीकृत
कार्यालय के तहत भी कर सकते हैं।

एच.एन.-1/एलजीएफ बीन ब्लाक, गांधीबाबा
इंडियापुरम, उत्तर प्रदेश-201014, इंडिया,
कृते आवेदन की और से
कृते एक्सप्लोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./- श्री. कपिल शर्मा
निदेशक

तिथि: 07.06.2024
स्थान: गांधीबाबा बुद्धी (सीआईएन-06093528)

ग्लोस्टर लिमिटेड
CIN: L17100WB1923PLC004628
पंजीकृत कार्यालय: 21, ट्रेड रोड, कोलकाता - 700 001
फोन: +91 33 2230 9601 फैक्स: +91 2210 6167, 2231 4222
ई-मेल: info@glosterjute.com, वेबसाइट: www.glosterjute.com

इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित स्वेच्छिक डीलरिंग
के लिए नोटिस

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और निमित्त बोर्ड (इक्विटी शेयरों की
डीलरिंग) विनियम, 2021 के विनियम 6 और उसके बाद के संशोधनों ("सेबी डीलरिंग
विनियम") के अनुसार, ग्लोस्टर लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने 30 मई 2024 को
आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ केवल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
से इक्विटी शेयरों की स्वेच्छिक डीलरिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वर्तमान में, कंपनी के इक्विटी शेयर वॉलरस लिमिटेड ("वॉलरस"), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ
इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("सीएसई") में सूचीबद्ध हैं।
पिछले कई वर्षों से वॉलरस में कंपनी के इक्विटी शेयरों में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है और कंपनी
को वॉलरस में सूचीबद्ध होने के लिए अतिरिक्त परिचालन लागत भी उठानी पड़ रही है। इसलिए,
कंपनी के इक्विटी शेयरों को केवल वॉलरस में डीलरिंग करने का प्रस्ताव है। वॉलरस से डीलरिंग
निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक या प्रभावित नहीं होगी।

सेबी डीलरिंग विनियम के विनियमन 6 के अनुसार कंपनी ने केवल वॉलरस से अपने इक्विटी
शेयरों को डीलरिंग करने का प्रस्ताव दिया है और चूंकि कंपनी के इक्विटी शेयर वॉलरस और
एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध बने रहेंगे, जिनके पास राष्ट्रीय ट्रेडिंग टर्मिनल है, इसलिए वॉलरस
से डीलरिंग कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को बाहर निकलने का कोई अवसर दिए बिना होगी।
इसके बाद, कंपनी के सभी शेयरधारक वॉलरस और एनएसई में लिस्टिंग और ट्रेडिंग का लाभ
उठाते रहेंगे। डीलरिंग के बाद कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा।

कृते ग्लोस्टर लिमिटेड
हस्ता./-
अमान दत्त
कंपनी सचिव
एम. नंबर 435557

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 08.06.2024

HDFC BANK
We understand your world
रूप में इसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, आई-थिंक
टेकनो केंद्र, कांजूरमार्ग (एन), मुंबई - 400042 में है।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को गिरवी ठहरी गई प्रतिभूतियों की विपरीत के लिए विपरीत

सूचना और सार्वजनिक सूचना।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) के नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को प्रतिभूतियों के बदले
ऋण/ओवरड्राफ्ट की प्रकृति में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक को गिरवी रखी गई
प्रतिभूतियों की विपरीत के संबंध में सूचित किया जाता है।
सहमत ऋण शुरू के अनुसार बकाया राशि का पुनर्मुताबक करने में उधारकर्ताओं द्वारा लगातार चूक
के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाते बकाया स्थिति में है। बैंक ने इन उधारकर्ताओं को कई नोटिस
जारी किए हैं, जिसमें नीचे दी गई तारीख पर अंतिम विपरीत नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत बैंक
ने प्रेषित लाभ की थी और उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में संपूर्ण बकाया राशि चुकाने के लिए
7 दिनों का समय प्रदान किया था, ऐसा न करने पर, बैंक इस संबंध में कोई और नोटिस जारी किए
बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
उधारकर्ताओं ने उपस्था की है और उचित पुनर्मुताबक करने में विफल रहे हैं, इसलिए, बैंक ने एक
गिरवीदार के रूप में ऋण समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं द्वारा
बैंक को दिए गए बकाया की वसूली के लिए **17 जून 2024** को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने
/ निपटान करने का निर्णय लिया है। उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि, यदि किसी
भी समय, शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण मार्जिन आवश्यकता में और कमी पैदा करने के लिए
गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य गिर जाता है, तो बैंक अपने विवेक से गिरवी रखी गई सुस्था
को एक के भीतर बेच देगा (1) क्रेडिट दिवस, इस संबंध में बिना किसी अतिरिक्त सूचना के गिरवी
प्रतिभूतियों की विपरीत से प्राप्त आय के समांग्यन के बाद, उधारकर्ता किसी भी शेयर बकाया राशि के
पुनर्मुताबक के लिए एक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	05 जून 2024 तक बकाया राशि	विपरीत सूचना की तिथि
1	XXXX6478	शिवानी प्रिंटा	26,179.94	06-06-2024
2	XXXX4512	सुनील कुमार शर्मा	32,137.50	06-06-2024
3	XXXX3792	अदील रहमानी	1,23,295.13	22-05-2024
4	XXXX8563	दीपिका लालानी	51,089.40	06-06-2024
5	XXXX6311	विशि अग्रवाल	59,620.00	30-05-2024
6	XXXX6315	सुदीपा बोरिक	2,08,968.71	05-06-2024
7	XXXX1042	रोम नाथ निश्रा	27,724.04	05-06-2024

दिनांक: 10.06.2024
स्थान: दिल्ली

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Bajaj Financial Solutions Limited' at Pune, Maharashtra as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated June 13, 2008, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Pune ("RoC") and was granted its certificate for commencement of business on September 24, 2008 by the RoC. Thereafter, the name of our Company was changed to 'Bajaj Housing Finance Limited' with a fresh certificate of incorporation dated November 14, 2014 issued by the Assistant Registrar of Companies, Pune. Our Company has also been granted a certificate of registration dated September 24, 2015 by the NHB bearing registration number 09.0127.15 to commence/carry on the business of a housing finance institution without accepting public deposits. For details, please see "History and Certain Corporate Matters" on page 228 of the Draft Red Herring Prospectus dated June 7, 2024 ("DRHP").

Registered Office: Bajaj Auto Limited Complex, Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, Maharashtra, India; Corporate Office: 5th Floor, B2, Cerebrum IT Park, Kumar City, Kalyani Nagar, Pune - 411014, Maharashtra, India.
Tel: 020 71878060, Website: www.bajajhousingfinance.in; Contact person: Atul Patni, Company Secretary and Compliance Officer, E-mail: bhfinvestor.service@bajajfinserv.in; Corporate Identity Number: U65910PN2008PLC132228

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: BAJAJ FINANCE LIMITED AND BAJAJ FINSERV LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[a] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[a] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹70,000.0 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹40,000.0 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE (THE "OFFER FOR SALE") OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹30,000.0 MILLION ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") ("OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [a]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AGGREGATING UP TO ₹[a] MILLION (CONSTITUTING UP TO [a]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AGGREGATING UP TO ₹[a] MILLION (CONSTITUTING UP TO [a]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE SHAREHOLDERS ("SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND THE SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [a]% AND [a]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, MAY CONSIDER AN ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES, AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE. SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [a] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SHALL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [a], ALL EDITIONS OF HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [a], AND [a] EDITIONS OF THE MARATHI DAILY NEWSPAPER [a], (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, the "QIB Portion" provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1,000,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount will be blocked by the SCSEs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. Furthermore, up to [a] Equity Shares, aggregating up to [a] million shall be made available for allocation on a proportionate basis only to Eligible Shareholders bidding in the Shareholders Reservation Portion, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. For details, see "Offer Procedure" on page 430 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the SEBI on June 8, 2024. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.bajajhousingfinance.in; and on the websites of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, BofA Securities India Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, SBI Capital Markets Limited, JM Financial Limited and IIFL Securities Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.mi-india.com, www.axiscapital.co.in, www.goldmansachs.com, www.sbicaps.com, www.jmfi.com and www.iiflcap.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have neither been recommended, nor approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk Factors" on page 33 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and structure and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled "Capital Structure" on page 83 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 228 of the DRHP.

Disclaimer Clause of NHB: The Company is having a valid Certificate of registration dated April 5, 2018 as amended on May 31, 2018 issued by the National Housing Bank (NHB) under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987. However, the NHB does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinion expressed by the Company and for repayment of deposits/discharge of liabilities by the Company.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Kotak	BofA SECURITIES	AXIS CAPITAL	Goldman Sachs	SBICAPS	JM FINANCIAL	IIFL SECURITIES
Kotak Mahindra Capital Company Limited 1 st Floor, 27 BKC, Plot No. C - 27, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 66328000 E-mail: dg.bajaj_housing_finance_jpo@kotak.com Website: https://investmentbank.kotak.com Investor Grievance ID: kmccordressal@kotak.com Contact Person: Ganesh Rane SEBI Registration Number: INM000008704	BofA Securities India Limited 18 th Floor, A Wing, One BKC, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 66328000 E-mail: dg.bajaj_housing_finance_jpo@kotak.com Website: https://investmentbank.kotak.com Investor Grievance ID: kmccordressal@kotak.com Contact Person: Ganesh Rane SEBI Registration Number: INM000008704	Axis Capital Limited 1 st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 035, Maharashtra, India Tel: +91 22 43252183 E-mail: bhf.jpo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance E-mail: investor.grievance@axiscap.in Contact Person: Pavan Naik SEBI Registration No.: INM000012029	Goldman Sachs (India) Securities Private Limited 951-A, Rational House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6616 9000 E-mail: bhf.jpo@gs.com Website: www.goldmansachs.com Investor Grievance E-mail: india-client-support@gs.com Contact Person: Mukarram Rajkotwala SEBI Registration Number: INM000011054	SBI Capital Markets Limited 1501, 1 st Floor, A & B Wing, Parinee Crescendo, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 41968300 E-mail: bhf.jpo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Investor Grievance E-mail: grievance.bsf@sbicaps.com Contact Person: Karan Savardekar / Sambit Rath SEBI Registration No.: INM000003531	JM Financial Limited 7 th Floor, Energy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 66303030 E-mail: bhf.jpo@jmfi.com Website: www.jmfi.com Investor Grievance E-mail: grievance.bsf@jmfi.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	IIFL Securities Limited 24 th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India Tel: +91 22 46464728 E-mail: bhf.jpo@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Investor Grievance E-mail: lg.bhf@iiflcap.com Contact Person: Mansi Sampat / Pawan Jain SEBI Registration No.: INM000010940

REGISTRAR TO THE OFFER

Kfintech Technologies Limited
Sreenium Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Sanjivgampally, Hyderabad-500 032, Telangana, India. Tel: +91 40 6716 2222/18003094001
E-mail: bhf.jpo@kfintech.com; Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com; Contact Person: M. Murali Krishna;
SEBI Registration No.: INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges on June 8, 2024. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.bajajhousingfinance.in; and on the websites of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, BofA Securities India Limited, Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, SBI Capital Markets Limited, JM Financial Limited and IIFL Securities Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.mi-india.com, www.axiscapital.co.in, www.goldmansachs.com, www.sbicaps.com, www.jmfi.com and www.iiflcap.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" on page 33 of the DRHP and the RHP when filed. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities law in the United States, and unless so registered and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (a) in the United States only to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no offering of securities in the United States.

ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
(यू में ओएआईएस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(ओएआईएस ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एक शाखा कंपनी)
चौ. कार्यालय: प्लॉट नंबर 84, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट,
अहमदनगर-मुंबई रोड, अहमदनगर (एम), मुंबई - 400 069
टेलीफोन: + 91 22 2889 5093 / 6707 0100 | फैक्स: +91 22 2882 8549
ईमेल: info@orixindia.com | www.orixindia.com | सीआईएन: U74900MH2006PLC163937

कच्चा सूचना
[नियम 8(1) सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002]

जबकि,
1. नीचे हस्ताक्षरकर्ता ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वितीय आसियसों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ, दिनांक 20 दिसंबर 2022 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंदकर्ता के रूप में **दीना नैन, सदापाल सिंह और मेसर सुभाष डेबरी एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** को नोटिस में उल्लिखित राशि **₹75,87,566.51/- रुपये (पचास लाख सत्तासी हजार पांच सौ शियासठ और इक्कावन सौ मात्र)** को मांग नोटिस की तारीख से मुगान/वसूली की तारीख तक उचित तरीके ब्याज और अन्य शुल्कों सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

2. उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस दिए जाने के बावजूद तथा संपूर्ण नोटिस राशि को ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता के उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ दिनांक **08.06.2024** को यहां वॉलेंट संघर्ष का मौलिक कच्चा ले लिया है।
3. उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संघर्ष में संविधि को कोई भी लैन-देन न करने की वेटावनी दी जाती है तथा संघर्ष में संबंधित किसी भी प्रकार को लैन-देन मांग नोटिस की तिथि से मुगान/वसूली की तिथि तक **₹75,87,566.51/- (पचास लाख सत्तासी हजार पांच सौ शियासठ और इक्कावन सौ मात्र)** रुपये को नोटिस के प्रभार के अंतर्गत होना।